



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 543]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1981/अग्राहायण 14, 1903

No. 543]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1981/AGRAHAYANA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

अधिसूचना

नवी दिल्ली, 5 दिसम्बर 1981

क्रा०प्र० 886(अ) - भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 56(ख) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान ही जाने पर कि किसी रेलवे स्टेशन तक केवल माल को ले जाने के लिए आभाषित रेल गाड़ियों द्वारा बुक किये गये माल का ऐम स्टेशन से अधिकतम हटाया जाना आवश्यक है और उस उपधारा के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रेल स्टेशन 15-12-1981 से और आगे छ (6) महीने की अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित करती है अर्थात् :-

- 1 बम्बई (वाडी बन्दर)
- 2 पुणे
- 3 नागपुर
- 4 इतवार
- 5 बेलनगज
- 6 जबलपुर
- 7 अहमदनगर
- 8 ग्वाल्नियर
- 9 भोपाल
- 10 फरीदाबाद

- 11 मथुरा जंक्शन
- 12 जलगाव
- 13 धकोला
- 14 नासिक रोड
- 15 सोलापूर
- 16 बल्लभगढ़
- 17 घाटकोपर
- 18 कल्याण
- 19 सतना
- 20 बाने
- 21 बारासात
- 22 हबड़ा
- 23 सियालवाह
- 24 उल्हाडागा
- 25 जिनपुर बाट
- 26 बाग बाजार
- 27 रथडोला
- 28 साहेब बाजार
- 29 काशीपुर (कलकत्ता पतलाम्याम)
- 30 बेलवाँरिया
- 31 मोदपुर
- 32 टीटागढ़
- 33 बैरकपुर
- 34 श्यामनगर
- 35 काशीनाडा

36. नैहाटी जंक्शन
37. भंवरपारा
38. कल्याणी
39. बालीगंज
40. कालीघाट
41. बज बज
42. आदवपुर
43. बरुईपुर जं०
44. डायमंड हावर
45. रामकिस्तोपुर
46. हावडा गुड्स
47. कोसीपुर रोड
48. लक्ष्मीकान्त पुर
49. जिनपुर
50. इलाहाबाद
51. कानपुर सेन्ट्रल गुड्स रोड (बड़ी लाइन)
52. मयी दिल्ली
53. झलीगढ़
54. भम्बाला कैन्ट
55. भमुतसर
56. बरेली
57. भीकानेर
58. बेहवाबून
59. गाजियाबाद
60. हरिद्वार
61. जम्मूतवी
62. जलन्धर सिटी
63. लखनऊ
64. लुधियाना
65. मेरठ मंजी
66. मुरादाबाद
67. सहारनपुर
68. वाराणसी
69. न्यू बोगाई गांव (बड़ी लाइन)
70. न्यू बोगाई गांव (मीटर लाइन)
71. तिनसुकिया गुड्स
72. न्यू गोहाटी
73. न्यू जलपाईगुरी
74. सिलचर
75. सिलीगुरी टाउन (गुड्स)
76. मद्रास माल्ट फोटिस
77. बंगलौर सिटी जंक्शन
78. रायपुरम
79. कालीकट
80. ऐणिकुलम गुड्स
81. कोल्लम जंक्शन
82. मीसूर
83. कोचीन हार्बर टर्मिनस
84. मदुरै जं०
85. धिरुवनगर जंक्शन
86. त्रिचर
87. तिरुचिरापल्ली गुड्स (बड़ी लाइन और मीटर लाइन)
88. अंगमालि (कलाडी)
89. कोयंबटूर जंक्शन (बड़ी लाइन और मीटर लाइन)
90. कोयंबटूर नार्थ जंक्शन
91. इरोड जं०
92. मंगलौर
93. सिकन्दराबाद
94. हैदराबाद
95. विजयवाडा
96. कोल्लपुर (गुड मार्किट)
97. मनतनगर
98. मौलामली
99. कावेरुडा
100. श्रीरंगाबाद
101. सामथोरजेम कर थोरम
102. माडगवां
103. हुबली
104. खम्मम
105. वारंगल
106. शालीमार
107. रांची
108. टाटानगर
109. कुलगाछिया
110. अंदूल
111. सांकरावल
112. वाउडिया
113. कोलाघाट
114. चंगल
115. उलुबङ्गिया
116. बागनात
117. भोक्सा
118. देउलटी
119. पासकुडा
120. बालीचक
121. खड़गपुरे
122. कोण्टाई रोड
123. हीर
124. मिथनापुर
125. मावपुर
126. श्याम चक
127. राधा मोहनपुर
128. मलपुर
129. भोगपुर
130. बीर शिवपुर
131. फलेभवर
132. जकपुर
133. घाट्रा
134. पुरुलिया जंक्शन
135. बांकडा
136. सालबोमी
137. चक्रधरपुर
138. बिष्णुपुर
139. टाटी सिलचई
140. बोफारो स्टील सिटी
141. राऊरकेला
142. रायगढ़
143. नैसा

144. बिलासपुर
145. भिलाई
146. खरमिया
147. शहडोल
148. चन्द्रकोना रोड
149. धर्मपुर
150. बराहभूम
151. जम्पा
152. प्रकलितारा
153. भाटापारा
154. दुर्ग
155. रायपुर
156. पेंडगा रोड
157. अंधेरी
158. बयोदरा जंक्शन
159. असारवा गुं
160. दादर (पश्चिम रेलवे)
161. बम्बई (कृष्ण प्रिज)
162. बोरीवली
163. फाकिया
164. माहीम

[सं. टी.सी.आर. 81/223/1]

हिममत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड,
एवं प्रदेश संयुक्त सचिव, भारत सरकार, रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1981

S.O. 886(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 56(B) of the Indian Railways Act, 1890 (No. 9 of 1890), the Central Government, being satisfied that it is necessary that the goods booked by trains intended solely for the carriage of goods to any railway station should be removed without delay from such railway station and having regard to the factors specified in the first proviso to that sub-section hereby declares the following railway stations as 'notified stations' for a period of six months with effect from 15-12-1981, namely :—

1. Bombay (Wadi Bundar)
2. Pune
3. Nagpur
4. Itwari
5. Belanganj
6. Jabalpur
7. Ahmednagar
8. Gwalior
9. Bhopal
10. Faridabad
11. Mathura Junction
12. Jalgaon
13. Akola
14. Nasik Road
15. Solapur
16. Ballabgarh
17. Ghatkopar
18. Kalyan
19. Satna
20. Thane
21. Baraset

22. Habra
23. Sealdah
24. Ultradanga
25. Chitpur Ghat
26. Baghbazar
27. Ruthola
28. Saheb Bazar
29. Cossipore
(Calcutta Port Trust)
30. Belgharia
31. Sodpur
32. Titagarh
33. Barrackpore
34. Shyamnagar
35. Kankinara
36. Naihati Junction
37. Kanchrapara
38. Kalyani
39. Ballygunge
40. Kalighat
41. Budge Budge
42. Jadavpur
43. Barudpur Junction
44. Diamond Harbour
45. Ramkistopur
46. Howrah Goods
47. Cossipore Road
48. Lakshmikantapur
49. Chitpur
50. Allahabad
51. Kanpur Central Goods Shed
(Broad Gauge)
52. New Delhi
53. Aligarh
54. Ambala Cantt.
55. Amritsar
56. Bareilly
57. Bikaner
58. Dehradun
59. Ghaziabad
60. Hardwar
61. Jammu Tawi
62. Jullundur City
63. Lucknow
64. Ludhiana
65. Meerut Mandi
66. Moradabad
67. Saharanpur
68. Varanasi
69. New Bongaigaon
(Broad Gauge)
70. New Bongaigaon
(Metro Gauge)
71. Tinsukia Goods
72. New Gauhati
73. New Jalpaiguri
74. Silchar
75. Siliguri Town (Goods)
76. Madras Salt Cotaurs
77. Bangalore City Junction
78. Royapuram
79. Calicut
80. Ernakulam Goods
81. Quilon
82. Mysore
83. Cochin Harbour Terminus
84. Madurai Junction
85. Virudhunagar Junction
86. Trichur

- | | |
|--|---------------------------------|
| 87. Tiruchchirappalli Goods
(Broad Gauge and Metre Gauge) | 128. Nalpur |
| 88. Angamali for Kaladi | 129. Bhogpur |
| 89. Coimbatore Junction
(Broad Gauge and Metre Gauge) | 130. Bīrshibpur |
| 90. Coimbatore North Junction | 131. Phuleswar |
| 91. Erode Junction | 132. Jakpur |
| 92. Mangalore | 133. Adra |
| 93. Secunderabad | 134. Purulia |
| 94. Hyderabad | 135. Bānkura |
| 95. Vijayawada | 136. Salboni |
| 96. Kolhapur (Gur Market) | 137. Chakradharpur |
| 97. Sanat Nagar | 138. Bishnupur |
| 98. Maula Ali | 139. Tatisilwai |
| 99. Kacheguda | 140. Bakaro Steel City |
| 100. Aurangabad | 141. Raurkela |
| 101. Sanvordam-Curchorem | 142. Raigarh |
| 102. Madgaon | 143. Naila |
| 103. Hubli | 144. Bilaspur |
| 104. Khammam | 145. Bhilai |
| 105. Warangal | 146. Kharsia |
| 106. Shalimar | 147. Shahdol |
| 107. Ranchi | 148. Chandrakona Road |
| 108. Tatanagar | 149. Burnpur |
| 109. Kulgachia | 150. Barabhum |
| 110. Andul | 151. Champa |
| 111. Sankrail | 152. Akaltara |
| 112. Bauria | 153. Bhatapara |
| 113. Kolaghat | 154. Durg |
| 114. Chengail | 155. Raipur |
| 115. Uluberia | 156. Pendra Road |
| 116. Bagnan | 157. Andheri |
| 117. Mecheda | 158. Vadodara Junction |
| 118. Deulti | 159. Asarva Junction |
| 119. Panskura | 160. Dadar
(Western Railway) |
| 120. Balichuck | 161. Bombay (Carnac Bridge) |
| 121. Kharagpur | 162. Borivli |
| 122. Contai Road | 163. Kankaria |
| 123. Haur | 164. Mahim. |
| 124. Midnapore | |
| 125. Madpur | |
| 126. Shyamchak | |
| 127. Radhamohanpur | |

[No. TCI/81/223/1]

HIMMAT SINGH, Secy.

Railway Board and Ex-officio Joint Secretary to the Govt.
of India